



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 43] नई दिल्ली, शनिवार, अक्टूबर 22—अक्टूबर 28, 2016 (आश्विन 30, 1938)

No. 43] NEW DELHI, SATURDAY, OCTOBER 22—OCTOBER 28, 2016 (ASVINA 30, 1938)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके  
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 1

[PART III—SECTION 1]

[उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार के संलग्न और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं]

[Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, the Union Public Service Commission, the Indian Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India]

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली—110001, दिनांक 30 सितम्बर 2016

सं. ई—16013/सु.सी—डीजी/2015/कार्मिक—2/1892—अधिवर्षिता की आयु पूरी करने पर, श्री सुरेंद्र सिंह, भा.पु.से. (प. बं. : 1980) द्वारा दिनांक 31.08.2016 (अपराहन) से महानिदेशक, केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, नई दिल्ली के पद का कार्यभार छोड़ दिया है।

मुकेश साहनी  
अवर सचिव (भा.पु.से. III)

भारतीय लेखा तथा लेखा परीक्षा विभाग

महालेखाकार (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र लेखापरीक्षा) का कार्यालय, ओडिशा

भुवनेश्वर, दिनांक 3 अक्टूबर 2016

सं प्रशासन (सा.सा.क्षे.लेप)/17-2(वलेपअ)/भाग-V/1774 (स्थापना आदेश संख्या : 38)—ज्ञापन सं प्रशासन (सा.सा.क्षे.लेप)/17-2(वलेपअ)/भाग-IX/1435 दिनांक 30.08.2016 द्वारा सूचित कार्यालय आदेश 'ग' 561 दिनांक 30.08.2016 के अनुपालन में निम्नलिखित लेखापरीक्षा अधिकारी की पदोन्नति होने पर उनके नाम के समक्ष दर्शाए गए तिथि से पूर्व संशोधित वेतन बैंड—3

(रु. 15600—39100/-) एवं सादृश्य ग्रेड वेतन रु. 5400/-पर वरिष्ठ लेखा परीक्षा अधिकारी (सिविल) के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है।

अधिकारी का नाम (श्री/सर्वश्री)	वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि
रमाकान्त साहु	01.09.2016 पूर्वाह्न

स्निग्धा महान्ति  
वरिष्ठ लेखा परीक्षा अधिकारी/प्रशासन

भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र

मुंबई-85, दिनांक 5 अक्टूबर 2016

सं. पीडी/2(16)/2015-भर्ती-IV/10986—राष्ट्रपति, श्री बिजु के को भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र में तकनीकी अधिकारी/सी के पद पर सातवें वेतनों के वेतन मैट्रिक्स, लेवल-10ए पार्ट-ए, में 28 जुलाई 2016 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक अस्थाई रूप में नियुक्त करते हैं।

एम. व्ही. श्रीधरन  
उप स्थापना अधिकारी

परमाणु ऊर्जा विभाग

मुंबई-400001, दिनांक 3 अक्टूबर 2016

सं. 9/4/2016-पावर/13058—राष्ट्रपति, इस विभाग के निम्नलिखित वैज्ञानिक अधिकारी/इंजीनियर, जो न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि. (एनपीसीआईएल) में स्थायी प्रतिनियुक्त पर हैं, को दिनांक 01.07.2016 से अगले आदेश होने तक स्थानापन्न आधार पर उनके सामने दर्शाये गए ग्रेड एवं निम्न विवरण के अनुसार नियुक्त करते हैं।

नाम (सर्वश्री)	वर्तमान ग्रेड	पदोन्नति ग्रेड	वेतन बैंड/वेतनमान	इकाई
ए. के. दुबे	वैज्ञानिक अधिकारी/इंजीनियर-एफ	वैज्ञानिक अधिकारी/इंजीनियर-जी	(वेतन बैंड पीबी-4 37,400—67,000/-) (ग्रेड वेतन-8,900/-) लेवल 13क वेतन में	रैंप-5&6

2. उपरोक्त अधिकारी ने दिनांक 01.07.2016 (पूर्वाह्न) से अपने निचले पद का कार्यभार त्याग दिया है।

ए. सुकुमारन  
अवर सचिव

परिवर्ती ऊर्जा साइक्लोट्रॉन केन्द्र

कोलकाता-700064, दिनांक 30 सितम्बर 2016

सं.वी.ई.सी.सी./पदोन्नति/2016/2629—राष्ट्रपति प्रसन्नतापूर्वक परिवर्ती ऊर्जा साइक्लोट्रॉन केन्द्र, परमाणु ऊर्जा विभाग, कोलकाता के निम्नलिखित वैज्ञानिक अधिकारियों को इसी केन्द्र में, वेतन मैट्रिक्स के लेवल 13 में वैज्ञानिक अधिकारी (एफ) के पद पर जुलाई 1, 2016 से अगले आदेश निकलने तक स्थानापन्न रूप में नियुक्ति प्रदान करते हैं :

क्र.सं.	नाम	वर्तमान पद	वेतन मैट्रिक्स का लेवल
1.	श्री सुमन्त्र भट्टाचार्या	वैज्ञानिक अधिकारी (ई)	12
2.	श्री तनुश्याम भट्टाचार्या	वैज्ञानिक अधिकारी (ई)	12
3.	श्री कौशिक दत्ता	वैज्ञानिक अधिकारी (ई)	12
4.	डॉ. तपन कुमार राणा	वैज्ञानिक अधिकारी (ई)	12
5.	श्री अतनु दत्ता	वैज्ञानिक अधिकारी (ई)	12
6.	डॉ. प्रशांत कर्मकार	वैज्ञानिक अधिकारी (ई)	12

ए. बनर्जी  
प्रशासनिक अधिकारी-III

सं.वी.ई.सी.सी./पदोन्नति/2016/2630—राष्ट्रपति प्रसन्नतापूर्वक परिवर्ती ऊर्जा साइक्लोट्रॉन केन्द्र, परमाणु ऊर्जा विभाग, कोलकाता के निम्नलिखित वैज्ञानिक अधिकारियों को इसी केन्द्र में, वेतन मैट्रिक्स के लेवल 14 में वैज्ञानिक अधिकारी (एच) के पद पर अगस्त 18, 2016 से अगले आदेश निकलने तक स्थानापन्न रूप में नियुक्ति प्रदान करते हैं :

क्र.सं. नाम	वर्तमान पद	वेतन मैट्रिक्स का लेवल
1. डॉ. शान्तनु गांगुली	वैज्ञानिक अधिकारी (जी)	13 क
2. डॉ. पी. वाई. नभिराज	वैज्ञानिक अधिकारी (जी)	13 क
3. डॉ. सौरभ सरकार	वैज्ञानिक अधिकारी (जी)	13 क

ए. बनर्जी  
प्रशासनिक अधिकारी-III

नवी मुंबई—400703, दिनांक 4 अक्टूबर 2016

सं. ब्रिट/9/17(3)/2016/189—राष्ट्रपति, परमाणु ऊर्जा विभाग के विकिरण एवं आईसोटोप प्रौद्योगिकी बोर्ड के ग्रेड 'जी' के वैज्ञानिक अधिकारी श्री एल एन बंडी को दिनांक 18 अगस्त 2016 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक इसी एकक में स्तर 14 के वेतन मैट्रिक्स में, वैज्ञानिक अधिकारी ग्रेड 'एच', के रूप में नियुक्त करते हैं।

पी. रामकृष्णन  
मुख्य प्रशासनिक अधिकारी

कार्यालय महानिदेशक नागर विमानन

नई दिल्ली-110003, दिनांक 14 सितम्बर, 2016

सं. ए-12018/1/2016 स्था-II.—केंद्रीय सरकार विमान सुरक्षा निदेशालय, नागर विमानन महानिदेशालय के निम्नलिखित पदों को तत्काल प्रभाव से पुनः पदनामित करती है:

क्रम सं.	वर्तमान पदनाम	नया पदनाम
i)	उपनिदेशक विमान सुरक्षा (इंजीनियरी) / क्षेत्रीय नियंत्रक विमान सुरक्षा (इंजीनियरी)	उप निदेशक विमान सुरक्षा
ii)	सहायक निदेशक विमान सुरक्षा (इंजीनियरी) / ज्येष्ठ विमान सुरक्षा अधिकारी (इंजीनियरी)	सहायक निदेशक विमान सुरक्षा
iii)	विमान सुरक्षा अधिकारी (इंजीनियरी)	विमान सुरक्षा अधिकारी

पवन मालवीय  
उपनिदेशक प्रशासन  
कृते महानिदेशक, नागर विमानन

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

कंपनी रजिस्ट्रार का कार्यालय

एल एल पी नियम 2009 और निम्नलिखित एलएलपी के विषय में

मुंबई—400002, दिनांक 2016

सं. आरओसी/एलएलपी 3(37)/940—लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप नियम, 2009 के नियम 37 के उपनियम 3 के अनुसरण में एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित एल एल पी के नाम आज रजिस्ट्रार से काट दिए गये हैं और उक्त एल एल पी विघटीत हो गई हैं :-

क्र. सं.	एल एल पी के नाम	एल एल पी पिन	एस आर एन
1	सरवीन कमोडीटीज एल एल पी	AAB-3354	L01812098
2	केपीएच जेवेल्स एल एल पी	AAA-8121	L02165710
3	इपानेमा रेसीडन्स एल एल पी	AAA-3324	L02012797

क्र. सं.	एल एल पी के नाम	एल एल पी पिन	एस आर एन
4	बारामती हाऊसींग कॉरपोरेशन एल एल पी	AAA-9024	L01636828
5	लुमिनोवा कंसलटिंग एल एल पी	AAA-1525	L02242485
6	श्रेया इन्फ्रास्पेस एल एल पी	AAA-6421	L02547248
7	अनिरुध्द इलेक्ट्रो सिस्टीम्स एल एल पी	AAA-3577	L02774305
8	सौरम पावर एल एल पी	AAA-3244	L00249417
9	इशानवी प्रोजेक्टस एल एल पी	AAA-4154	L03088069
10	कटिंग एज फार्मा एल एल पी	AAB-3877	L03113503
11	मोकश रिअल्टी अंडव्हायझर्स एल एल पी	AAB-1518	L03123668
12	वरदविनायक होममेकर्स एल एल पी	AAB-3873	L03145950
13	ब्लिज स्टैंडस सॉफ्टवेअर एल एल पी	AAB-3673	L03252004
14	निम्बस नेटवर्क एल एल पी	AAC-2574	L03265063
15	द्वारकाधिस बिल्डलाइट सोलुशन्स एल एल पी	AAC-0605	L03290269
16	वेन्थस्ट्रेजस अंडव्हायझर्स एल एल पी	AAA-4300	L03307402
17	डिके रिअलकॉन एल एल पी	AAB-2259	L03324589
18	क्लिफव्यु रिअल्टर्स एल एल पी	AAA-7761	L03330370
19	डिपी अक्वा क्रोमोटोग्राफी एल एल पी	AAB-6376	L03331998
20	मेलको कॉन्ट्रैक्टिंग सर्विसेस एल एल पी	AAA-7765	L03386919
21	प्रेज एन्टरप्राइजेस एल एल पी	AAC-0947	L03410958
22	डिएनए लुब्रिकेन्टस अण्ड स्पेसिअलिटीज एल एल पी	AAB-3768	L03448636
23	एक्झोकोम्प टेक्नॉलॉजीस एल एल पी	AAC-0749	L03341617
24	विठल इन्फ्रा प्रॉपर्टी एल एल पी	AAA-1667	K00930261
25	पि3 स्पोर्ट्स मॅनेजमेंट एल एल पी	AAB-3982	L03504305
26	मार्केट बडी इन्सीटयुट एल एल पी	AAC-1044	L03534609
27	विवान्ता डेकोर एल एल पी	AAA-1211	L03702693
28	अरिस्टोक्रैटिक जेम्स एल एल पी	AAB-5931	M00131193
29	सॉफनेट टेक्नॉलॉजीस एल एल पी	AAA-6936	M00133223
30	स्पीड ट्रेड कॅपीटल अंडव्हायझर्स एल एल पी	AAA-2252	M00213249
31	मेटा स्टाफ सोलुशन्स एल एल पी	AAA-8574	M00244616
32	रिकर्सिव्ह डायनामिक एल एल पी	AAB-6809	M00249805
33	हॅबीटस रिअल्टी एल एल पी	AAC-5080	M00310359
34	डाटा ब्रिज बिज़िनेस सोलुशन्स एल एल पी	AAB-4270	M00331512
35	शाश्वत बिल्डवेल एल एल पी	AAB-0593	M00374447
36	लाडेर 13 इ-सर्विसेस एल एल पी	AAB-1453	M00376285
37	शॉकिंग पिंक फॅशन्स एल एल पी	AAB-5141	M00392886
38	आरती डिएमसीसी फर्टिलायझर्स एल एल पी	AAA-7347	M00395921
39	एमझेडएसके रिअल्टर्स एल एल पी	AAA-9209	M00416198
40	कर्मविर डेव्हलपर्स एल एल पी	AAC-8429	M00417931
41	युनायटेड इंजिनिअरिंग अण्ड कंसलटन्टस एल एल पी	AAB-4453	M00436196
42	ब्रुज डायरी अण्ड अग्नो एल एल पी	AAB-9546	M00452896
43	महर्षि संदिपानी हर्बल्स एल एल पी	AAB-9765	M00453183

क्र. सं.	एल एल पी के नाम	एल एल पी पिन	एस आर एन
44	के एल पार्थेस डेव्हलपर्स एल एल पी	AAA-2387	M00474619
45	विंगजस एक्झीम एल एल पी	AAA-8167	M00477992
46	जेएनडी वेंजर्स एल एल पी	AAB-4677	M00480368
47	क्लिअर चॅनल मुद्रा एल एल पी	AAA-0198	M00486753
48	विएस फायनान्शियल प्लॅनर्स एल एल पी	AAA-0084	M00488643
49	एस अण्ड एफ स्पोर्ट्स एल एल पी	AAB-2328	M00492884
50	अॅक्युब कॅपीटल अॅडव्हायझर्स एल एल पी	AAA-2731	M00507632
51	क्रिडन्स ब्लु वेंचर्स एल एल पी	AAA-4243	M00495325
52	भौमिक कोचिंग क्लासेस एल एल पी	AAA-7756	M00503490
53	विआर इमॅजिंग कंपनी एल एल पी	AAA-7058	M00507202
54	पिएस इन्स्टन्ट मिल्स एल एल पी	AAB-1080	M00512376
55	इन्सोल इंजिनिअरिंग सोलुशन्स एल एल पी	AAB-0240	M00532895
56	विजन किरन प्रॉपर्टीज एल एल पी	AAB-1933	M00551713
57	मजीठीया युनायटेड रिअल्टी एल एल पी	AAB-2465	M00558080
58	युनिकॉर्न ग्लोबल इन्फ्राहाइट्स एल एल पी	AAA-4139	M00564815
59	कुनाल इन्फोसिस्टिम्स एल एल पी	AAC-5862	M00577106
60	अस्मिन प्रोजेक्ट्स एल एल पी	AAA-8161	M00581298
61	किस्मत हार्डवेअर एल एल पी	AAC-2376	M00585067
62	युनिविस्टा ग्लोबल होम्स एल एल पी	AAA-5110	M00606558
63	युनिकॉर्न रिअलहाइट्स अण्ड इस्टेट्स एल एल पी	AAA-4130	M00606657
64	सॅटोलाइट अण्ड सदगुरु रिअल्टर्स एल एल पी	AAC-0229	M00608018
65	युनिविस्टा ग्लोबल टाउलशिप अण्ड कंसल्टन्स एल एल पी	AAA-5107	M00606665
66	एसएमबी इम्पेक्स एल एल पी	AAD-1345	M00652305
67	अंडरथिसुन वेंचर्स एल एल पी	AAB-4829	M00656272
68	ग्रीप्स अण्ड मोर टुल्स एल एल पी	AAC-2671	M00656801
69	अगीलिस इंटरमेजिअरिज एल एल पी	AAD-3921	M00663179
70	नेपॅक पॅकेजिंग एल एल पी	AAB-5285	M00661298
71	स्टॅण्डर्ड इनफिनिट वेल्थ एल एल पी	AAC-6906	M00710137
72	देसाइ अण्ड असोसिएट्स इन्शुरन्स कंसलटन्ट्स एल एल पी	AAA-4905	M00707182
73	स्टॅफोर्ड पार्टनर्स एल एल पी	AAB-0551	M00725796
74	विनरेट अॅडव्हायझरी एल एल पी	AAA-0182	M00751156
75	सिल्वर स्क्वेअर रिटेल मॅनेजमेन्ट एल एल पी	AAA-2783	M00743989
76	प्लाजा अॅडव्हायझरी एल एल पी	AAA-0580	M00751198
77	मेक टेक ग्लोबल सोलुशन्स एल एल पी	AAA-7824	M00767319
78	श्रेया हॉलीडेज अण्ड रिसोर्ट्स एल एल पी	AAB-7855	M00789339
79	मेडिनेस्ट वेंचर्स एल एल पी	AAB-0478	M00807149
80	नवकर सनराइज़ रिअल्टी एल एल पी	AAC-5246	M00818294
81	सिचर इन्फ्रास्ट्रक्चर्स एल एल पी	AAB-0043	M00817452
82	डॅश फॅबडिज़ाइनस्टोअर एल एल पी	AAA-4035	M00823047
83	प्रोलीज होल्डिंग्स एल एल पी	AAA-1282	M00830190

क्र. सं.	एल एल पी के नाम	एल एल पी पिन	एस आर एन
84	टेकफैब इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर्स एल एल पी	AAA-3211	M00826388
85	कल्पवृक्ष माइन सर्विसेस एल एल पी	AAA-1822	M00833640
86	मिथिली क्रियेशन्स एल एल पी	AAC-0871	M00833012
87	श्री कैलजी केबल्स एल एल पी	AAA-8589	M00837997
88	वर्ल्ड ऑफ वंडर्स टुर्स एल एल पी	AAB-7921	M00848465
89	नोवोनाफस सिस्टीम्स एल एल पी	AAA-8041	M00840181
90	पॉइंट ऑफ ह्यू वेंचर्स एल एल पी	AAB-8084	M00841825
91	वि'एस फिटनेस एल एल पी	AAD-1586	M00843490
92	मेहरा अँड वर्नेकर जेवलर्स एल एल पी	AAB-4874	M00859199
93	स्क्रिअहमद स्टुडिओ एल एल पी	AAB-3056	M00864298
94	सुर्यदिप क्रियेशन्स एल एल पी	AAD-2668	M00889246
95	आइसलँड अँडव्हायज़र्स एल एल पी	AAB-7704	M00872333
96	आइसलँड कारपोरेट कंसलटन्ट्स एल एल पी	AAB-8847	M00872523
97	तोरल कन्ट्रोलर्स एल एल पी	AAA-2973	M00876870
98	लुझलाइफ होम्स एल एल पी	AAA-8424	M00888495
99	एस आर फिटनेस एल एल पी	AAA-1556	M00876334
100	चेमिसेक्स स्पेशिअलिटी केमिकल्स एल एल पी	AAC-1426	M00879734
101	स्पेस जँक इम्पोर्ट अँड एक्सपोर्ट एल एल पी	AAC-4121	M00886697
102	माजेल टॉइ शुज एल एल पी	AAB-4907	M00883868
103	क्वॉइज गारमेंट्स अँड फॅशन अँसेसरिज एल एल पी	AAA-3884	M00895904
104	अनुथम आयटी सोलुशन्स एल एल पी	AAC-2768	M00896175
105	फसर्ट स्पोर्ट्स कंसलटिंग एल एल पी	AAC-0306	M00899369
106	निममसा कंसलटिंग एल एल पी	AAB-2388	M00900795
107	निओन एनव्हारोनमेंटल एल एल पी	AAD-4115	M00917120
108	निओन वास्ट मॅनेटमेंट एल एल पी	AAD-4114	M00917161
109	जि. के अँग्रो कमोडिटीज एल एल पी	AAB-9770	M00921346
110	ग्राउंड रिअल्टी डेव्हलपर्स एल एल पी	AAB-5822	M00920777
111	क्लेरस वर्ल्ड अँकेडमी एल एल पी	AAC-1020	M00919951
112	इम्पॅक्ट मॅगना इवेंट्स एल एल पी	AAA-5870	M00929588
113	बुनो ट्रेडिंग अँड कंसलटन्सी एल एल पी	AAB-5663	M00932483
114	सनो फार्मासिटिकल्स एल एल पी	AAB-1775	M00938720
115	आयाम टेक्नोवेशन्स कंसलटन्सी एल एल पी	AAA-3165	M00938456
116	मकक्यु कॅपीटल अँडव्हायज़र्स एल एल पी	AAA-3311	M00950675
117	हावन इन्फोटेक एल एल पी	AAB-9947	M00957324
118	बॉम्बे बेल्टिंग एल एल पी	AAC-2850	M00965806
119	पाइनअपल रिटेल एल एल पी	AAD-2461	M00984518
120	एव्हरग्रीन स्पाइसेस अँड फुड इन्ग्रेडिअन्ट्स एल एल पी	AAC-1129	M01007640
121	मुंबई कोस्टल सिफुड अँड फिशरिज एल एल पी	AAD-4783	M01010305
122	गोल्डन फ्रिकटेक एल एल पी	AAB-4885	M01011568
123	एएमआइ श्रीजी वेंचर्स एल एल पी	AAB-8245	M01030931

क्र. सं.	एल एल पी के नाम	एल एल पी पिन	एस आर एन
124	टायचे मेटल एल एल पी	AAB-1457	M01032903
125	अनाटोला रिसर्च अँडव्हायज़र्स एल एल पी	AAA-6496	M01034115
126	सोलुशन्स वेंचर्स फायनान्शीयल अँडव्हायज़री एल एल पी	AAC-6021	M01041953
127	पेलो पेमेंट सिस्टीम्स एल एल पी	AAC-0368	M01042902
128	लैकोस्टे होम्स एल एल पी	AAC-1594	M01070630
129	नोवुनो टेक्नॉलॉजी कंसलटिंग एल एल पी	AAB-4908	M01098342

एस पी कुमार  
कंपनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम 1956 तथा निम्नलिखित कम्पनियों के संबंध में

शिलांग-793001, दिनांक 6 सितम्बर 2016

सं. क./र./शि./560(5)/2016/1737—कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उप-धारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित कम्पनियों के नाम आज रजिस्टर से काट दिए गए हैं और उक्त कम्पनियां विघटित कर दी गई हैं :-

क्र. सं.	सिन नम्बर	कम्पनी का नाम
1.	U45201AS2010PTC009735	लेमबाड कन्शट्रक्शन प्राईवेट लिमिटेड
2.	U51101AR2012PTC008360	ईटानगर माईक्रो डीशट्रीब्यूशन प्राईवेट लिमिटेड
3.	US01409AR1996PTC004803	कोजी जांगो प्राईवेट लिमिटेड
4.	U51909AS2011PTC20736	अलटेक रूफींग इस्ट्रक्चर प्राईवेट लिमिटेड

चन्दन कुमार  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
मेघालय

## SUPREME COURT OF INDIA

New Delhi, the 29th September 2016

No. F. 34/2016/SCA(1)—In exercise of the powers conferred by clause (2) of Article 146 of the Constitution, the Chief Justice of India hereby makes the following amendments to the Supreme Court Officers and Servants (Conditions of Service and Conduct) Rules, 1961:—

1. The following be substituted in Column No. 4---- Method of Recruitment against the post of Librarian--Category No. 28:-

Method of Recruitment
(4)
By Direct Recruitment OR By posting of Senior Assistant Librarian on the basis of seniority subject to fulfillment of prescribed qualification.

M.V. RAMESH  
Registrar (Admn.I)

New Delhi, the 4th October 2016

No. F. 20/2016/SCA(1)—Ms. Pushpa Rani Anand, Branch Officer/Court Master (Non-Shorthand) has retired from the service of the Registry of the Supreme Court of India with effect from the afternoon of September 30, 2016 on her attaining the age of superannuation.

BADR-UL-ISLAM  
Additional Registrar (Admn.I)

## MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi-110001, the 30th September 2016

No. E-16013/SS-DG/2015/Pers.II/1892—On attaining the age of Superannuation, Shri Surender Singh, IPS (WB:1980) has relinquished the charge of the post of Director General, Central Industrial Security Force, New Delhi, with effect from the afternoon of 31<sup>st</sup> August, 2016.

MUKESH SAWHNEY  
Under Secy. (IPS.III)

## INDIAN AUDIT AND ACCOUNTS DEPARTMENT

OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL (GENERAL &amp; SOCIAL SECTOR AUDIT), ODISHA

Bhubaneswar, the 3rd October 2016

No. Admn(G&SSA)/17-2(AO)/Vol.IX/ 1774 (E.O. No. 38)—In pursuance of OOC No. 561 dated 30.08.2016 communicated vide Memo No. Admn (G&SSA)-17-2/ (AO)/Vol.IX /1435 dated 30.08.2016 the following Audit Officer on promotion has assumed the charge as Sr. Audit Officer (Civil) in pre-revised Pay Band – 3 (Rs.15600/- – Rs. 39100/-) with corresponding Grade Pay of 5400/- with effect from the date as indicated against him.

Name of the Officers (S/Shri)	Date of taking over charge as Sr. Audit Officer
Ramakanta Sahoo	01.09.2016 FN

SNIGDHA MAHANTI  
Sr. Audit Officer/ Admn.

## BHABHA ATOMIC RESEARCH CENTRE

Mumbai-85, the 5th October 2016

No. PD/2(16)/2015-R-IV/10986—The President is pleased to appoint Shri Biju K as Technical Officer/C at 'Level 10', Part-A of the Pay Matrix of 7<sup>th</sup> CPC in Bhabha Atomic Research Centre in a temporary capacity with effect from the forenoon of 28th July, 2016 until further orders.

M. V. SREEDHARAN  
Deputy Establishment Officer



## DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY

Mumbai-400001, the 3rd October 2016

No. 9/4/2016-Power/13058—The President is pleased to appoint the following Scientific Officer/Engineer of this Department who is on permanent deputation to the Nuclear Power Corporation of India Limited (NPCIL) to the grade as mentioned and as detailed below in an officiating capacity w.e.f. 01.07.2016, until further orders.

Name (S/Shri)	Present Grade	Promoted to Grade	Pay Band/Pay Scale (Rs.)	Unit
A. K. Dubey	Scientific Ofifcer/Engineer-F	Scientific Officer/Engineer-G	(PB-4 37,400—67,000/-) (Grade pay-8,900/-) Level 13A of Pay Matrix	RAPP- 5&6

2. The above officer relinquished charge of the lower post held by him w.e.f. 01.07.2016 (FN).

A. SUKUMARAN  
Under Secy.

## VARIABLE ENERGY CYCLOTRON CENTRE

Kolkata-700 064, the 30th September 2016

No.VECC/Prom/2016/2629—The President is pleased to appoint the undermentioned Scientific Officers of Variable Energy Cyclotron Centre, Department of Atomic Energy, Kolkata to the grade of Scientific Officer (F) in the level 13 of Pay Matrix, in the same Centre in an officiating capacity with effect from July 1, 2016, until further orders :-

Sl.No.	Name	Present post	Level of Pay Matrix
1.	Shri Sumantra Bhattacharya	Scientific Officer (E)	12
2.	Shri Tanushyam Bhattacharjee	Scientific Officer (E)	12
3.	Shri Kaushik Datta	Scientific Officer (E)	12
4.	Dr. Tapan Kumar Rana	Scientific Officer (E)	12
5.	Shri Atanu Dutta	Scientific Officer (E)	12
6.	Dr. Prasanta Karmakar	Scientific Officer (E)	12

A. BANERJEE  
Administrative Officer-III

No.VECC/Prom/2016/2630—The President is pleased to appoint the undermentioned Scientific Officers of Variable Energy Cyclotron Centre, Department of Atomic Energy, Kolkata to the grade of Scientific Officer (H) in the level 14 of Pay Matrix, in the same Centre in an officiating capacity with effect from August 18, 2016, until further orders :-

Sl.No.	Name	Present post	Level of Pay Matrix
1.	Dr. Shantanu Ganguly	Scientific Officer (G)	13 A
2.	Dr. P.Y. Nabhiraj	Scientific Officer (G)	13 A
3.	Dr. Sourav Sarkar	Scientific Officer (G)	13 A

A. BANERJEE  
Administrative Officer-III

Navi Mumbai-400703, the 4th October 2016

No. BRIT/9/17(3)/2016/189—The President is pleased to appoint Shri L.N. Bandi, Scientific Officer Grade 'G' of Board of Radiation & Isotope Technology of the Department of Atomic Energy as Scientific Officer Grade 'H' in the Level 14 of Pay matrix in the same Unit with effect from the forenoon of August 18, 2016 until further orders.

P. RAMAKRISHNAN  
Chief Admn. Officer

## OFFICE OF THE DIRECTOR GENERAL OF CIVIL AVIATION

New Delhi – 110 003 the 14th September 2016

No. A-12018/1/2016-E.II.—The Central Government is pleased to re-designate the following posts in the Air Safety Directorate of the Directorate General of Civil Aviation with immediate effect:

Sl. No.	Existing Designation	New Designation
i)	Deputy Director of Air Safety (Engineering) / Regional Controller of Air Safety (Engineering)	Deputy Director of Air Safety
ii)	Assistant Director of Air Safety (Engineering) / Senior Air Safety Officer (Engineering)	Assistant Director of Air Safety
iii)	Air Safety Officer (Engineering)	Air Safety Officer

PAVAN MALVIYA  
Dy Director of Admn.  
*for* Director General of Civil Aviation

## MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

(OFFICE OF THE REGISTRAR OF COMPANIES)

In the Matter of LLP Rules 2009 and of the following LLPs

Mumbai-400002, the 2016

No. ROC/LLP3(37)/940—Notice is hereby given pursuant to Rule 3 of 37 of Limited Liability Partnership Rules, 2009 that the name of the following Limited Liability Partnerships have this day been struck off from the register and the said Limited Liability Partnerships are dissolved.

Sr. No.	NAME OF LLP'S	LLP PIN	SRN
1	SARVIN COMMODITIES LLP	AAB-3354	L01812098
2	KPH JEWELS LLP	AAA-8121	L02165710
3	IPANEMA RESIDENCE LLP	AAA-3324	L02012797
4	BARAMATI HOUSING CORPORATION LLP	AAA-9024	L01636828
5	LUMINOVA CONSULTING LLP	AAA-1525	L02242485
6	SHREYA INFRASPACE LLP	AAA-6421	L02547248
7	ANIRUDDHAY ELECTRO SYSTEMS LLP	AAA-3577	L02774305
8	SAURUM POWER LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP	AAA-3244	L00249417
9	ISHANVI PROJECTS LLP	AAA-4154	L03088069
10	CUTTING EDGE PHARMA LLP	AAB-3877	L03113503
11	MOKSH REALTY ADVISORS LLP	AAB-1518	L03123668
12	VARADAVINAYAKA HOMEMAKERS LLP	AAB-3873	L03145950
13	BLITZ STATS SOFTWARE LLP	AAB-3673	L03252004
14	NIMBUS NETWORKS LLP	AAC-2574	L03265063
15	DWARKADHISH BUILDLLITE SOLUTIONS LLP	AAC-0605	L03290269
16	WEALTHSTRATZ ADVISORS LLP	AAA-4300	L03307402
17	DK REALCON LLP	AAB-2259	L03324589
18	CLIFF VIEW REALTORS LLP	AAA-7761	L03330370
19	DP AQUA CHROMATOGRAPHY LLP	AAB-6376	L03331998
20	MELCO CONTRACTING SERVICES LLP	AAA-7765	L03386919
21	PRAISE ENTERPRISES LLP	AAC-0947	L03410958

Sr. No.	NAME OF LLP'S	LLP PIN	SRN
22	DNA LUBRICANTS & SPECIALITIES LLP	AAB-3768	L03448636
23	EXOCOMP TECHNOLOGIES LLP	AAC-0749	L03341617
24	VITHAL INFRA PROPERTY LLP	AAA-1667	K00930261
25	P3 SPORTS MANAGEMENT LLP	AAB-3982	L03504305
26	MARKET BUDDY INSTITUTE LLP	AAC-1044	L03534609
27	VIVANTA DECOR LLP	AAA-1211	L03702693
28	ARISTOCRATIC GEMS LLP	AAB-5931	M00131193
29	SOFNET TECHNOLOGIES LLP	AAA-6936	M00133223
30	SPEED TRADE CAPITAL ADVISORS LLP	AAA-2252	M00213249
31	META TUFF SOLUTIONS LLP	AAA-8574	M00244616
32	RECURSIVE DYNAMICS LLP	AAB-6809	M00249805
33	HABITUS REALTY LLP	AAC-5080	M00310359
34	DATA BREEZE BUSINESS SOLUTIONS LLP	AAB-4270	M00331512
35	SHASHWAT BUILD WELL LLP	AAB-0593	M00374447
36	LADDER13 E- SERVICES LLP	AAB-1453	M00376285
37	SHOCKING PINK FASHIONS LLP	AAB-5141	M00392886
38	AARTI DMCC FERTILISERS LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP	AAA-7347	M00395921
39	MZSK REALTORS LLP	AAA-9209	M00416198
40	KARMVEER DEVELOPERS LLP	AAC-8429	M00417931
41	UNITED ENGINEERS AND CONSULTANTS LLP	AAB-4453	M00436196
42	BRUJ DAIRY AND AGRO LLP	AAB-9546	M00452896
43	MAHARSHI SANDIPANI HERBALS LLP	AAB-9765	M00453183
44	K L PARTHESH DEVELOPERS LLP	AAA-2387	M00474619
45	WINGS EXIM LLP	AAA-8167	M00477992
46	JND VENTURES LLP	AAB-4677	M00480368
47	CLEAR CHANNEL MUDRA LLP	AAA-0198	M00486753
48	V5 FINANCIAL PLANNERS LLP	AAA-0084	M00488643
49	M & F SPORTS LLP	AAB-2328	M00492884
50	ACUBE CAPITAL ADVISORS LLP	AAA-2731	M00507632
51	CREDENCE BLUE VENTURE LLP	AAA-4243	M00495325
52	BHAUMIK COACHING CLASSES LLP	AAA-7756	M00503490
53	V R IMAGING COMPANY LLP	AAA-7058	M00507202
54	PS INSTANT MEALS LLP	AAB-1080	M00512376
55	INSOL ENGINEERING SOLUTIONS LLP	AAB-0240	M00532895
56	VIJAN KIRAN PROPERTIES LLP	AAB-1933	M00551713
57	MAJITHIA UNITED REALTY LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP	AAB-2465	M00558080
58	UNICORN GLOBAL INFRAHEIGHTS LLP	AAA-4139	M00564815
59	KUNAL INFOSYSTEMS LLP	AAC-5862	M00577106

Sr. No.	NAME OF LLP'S	LLP PIN	SRN
60	ASMIN PROJECTS LLP	AAA-8161	M00581298
61	KISMAT HARDWARE LLP	AAC-2376	M00585067
62	UNIVISTA GLOBAL HOMES LLP	AAA-5110	M00606558
63	UNICORN REALHEIGHTS & ESTATES LLP	AAA-4130	M00606657
64	SATELLITE AND SADGURU REALTORS LLP	AAC-0229	M00608018
65	UNIVISTA GLOBAL TOWNSHIP & CONSTRUCTIONS LLP	AAA-5107	M00606665
66	SMB IMPEX LLP	AAD-1345	M00652305
67	UNDERTHESUN VENTURES LLP	AAB-4829	M00656272
68	GRIPS AND MORE TOOLS LLP	AAC-2671	M00656801
69	AGILIS INTERMEDIARIES LLP	AAD-3921	M00663179
70	NEPAC PACKAGINGS LLP	AAB-5285	M00661298
71	STANDARD INFINITE WEALTH LLP	AAC-6906	M00710137
72	DESAI & ASSOCIATES INSURANCE CONSULTANTS LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP	AAA-4905	M00707182
73	STAFFORD PARTNERS LLP	AAB-0551	M00725796
74	VENERATE ADVISORY LLP	AAA-0182	M00751156
75	SILVER SQUARE RETAIL MANAGEMENT LLP	AAA-2783	M00743989
76	PLAZA ADVISORY LLP	AAA-0580	M00751198
77	MECH TECH GLOBAL SOLUTIONS LLP	AAA-7824	M00767319
78	SHREYA HOLIDAYS & RESORTS LLP	AAB-7855	M00789339
79	MEDINEST VENTURES LLP	AAB-0478	M00807149
80	NAVKAR SUNRISE REALTY LLP	AAC-5246	M00818294
81	SICHER INFRASTRUCTURE LLP	AAB-0043	M00817452
82	DASH FABDESIGNSTORE LLP	AAA-4035	M00823047
83	PROLEASE HOLDINGS LLP	AAA-1282	M00830190
84	TECHFAB INDIA INFRASTRUCTURE LLP	AAA-3211	M00826388
85	KALPAVRUKSHA MINE SERVICES LLP	AAA-1822	M00833640
86	MYTHILI CREATION LLP	AAC-0871	M00833012
87	SHREE KAILAJI CABLES LLP	AAA-8589	M00837997
88	WORLD OF WONDERS TOURS LLP	AAB-7921	M00848465
89	NOWONAPPS SYSTEMS LLP	AAA-8041	M00840181
90	POINT OF HUE VENTURES LLP	AAB-8084	M00841825
91	V'S FITNESS LLP	AAD-1586	M00843490
92	MEHARRA & VERNEKAR JEWELLERS LLP	AAB-4874	M00859199
93	SCREAMHEAD STUDIO LLP	AAB-3056	M00864298
94	SURYADEEP CREATIONS LLP	AAD-2668	M00889246
95	ISLAND ADVISORS LLP	AAB-7704	M00872333

Sr. No.	NAME OF LLP'S	LLP PIN	SRN
96	ISLAND CORPORATE CONSULTANTS LLP	AAB-8847	M00872523
97	TOREL CONTROLS LLP	AAA-2973	M00876870
98	LUSHLIFE HOMES LLP	AAA-8424	M00888495
99	S.R. FITNESS LLP	AAA-1556	M00876334
100	CHEMICEX SPECIALTY CHEMICALS LLP	AAC-1426	M00879734
101	SPACE JACK IMPORT & EXPORT LLP	AAC-4121	M00886697
102	MAZEL TOE SHOES LLP	AAB-4907	M00883868
103	QUOISE GARMENTS & FASHION ACCESSORIES LLP	AAA-3884	M00895904
104	ANUTHAM IT SOLUTIONS LLP	AAC-2768	M00896175
105	FIRST SPORTS CONSULTING LLP	AAC-0306	M00899369
106	MIMAMSA CONSULTING LLP	AAB-2388	M00900795
107	NEON ENVIRONMENTAL LLP	AAD-4115	M00917120
108	NEON WASTE MANAGEMENT LLP	AAD-4114	M00917161
109	G. K. AGRO COMMODITIES LLP	AAB-9770	M00921346
110	GROUND REALITY DEVELOPERS LLP	AAB-5822	M00920777
111	CLARUS WORLD ACADEMY LLP	AAC-1020	M00919951
112	IMPACT MAGNA EVENTS LLP	AAA-5870	M00929588
113	BUENO TRADING AND CONSULTANCY LLP	AAB-5663	M00932483
114	SANO PHARMACEUTICALS LLP	AAB-1775	M00938720
115	AAYAM TECHNOVATIONS CONSULTANCY LLP	AAA-3165	M00938456
116	MARQUEE CAPITAL ADVISORS LLP	AAA-3311	M00950675
117	HAONE INFOTECH LLP	AAB-9947	M00957324
118	BOMBAY BELTING LLP	AAC-2850	M00965806
119	PINEAPPLE RETAIL LLP	AAD-2461	M00984518
120	EVERGREEN SPICES AND FOOD INGREDIENTS LLP	AAC-1129	M01007640
121	MUMBAI COASTAL SEAFOOD AND FISHERIES LLP	AAD-4783	M01010305
122	GOLDEN FRICTECH LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP	AAB-4885	M01011568
123	AMI SHREEJI VENTURES LLP	AAB-8245	M01030931
124	TYCHE METALS LLP	AAB-1457	M01032903
125	ANATOLA RESEARCH ADVISORS LLP	AAA-6496	M01034115
126	SOLUTIONS VENTURERS FINANCIAL ADVISORY LLP	AAC-6021	M01041953
127	PAYLOW PAYMENT SYSTEM LLP	AAC-0368	M01042902
128	LACOSTE HOMES LLP	AAC-1594	M01070630
129	NOVUNO TECHNOLOGY CONSULTING LLP	AAB-4908	M01098342

S. P. KUMAR  
Registrar of Companies,  
Maharashtra

In the matter of Companies Act 1956 and of the following Companies  
Shillong-793001, the 6th September 2016

No. ROC/SH/560(5)/2016/1737—Notice is hereby given pursuant to Sub Section (5) of section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of the following Companies has this day been struck off from the Register and the said Companies are dissolved.

SI No	CIN No.	COMPANY NAME
1	U45201AS2010PTC00935	Lambard Construction Private Limited
2	U51101AR2012PTC008360	Intanagar Micro Distribution Private Limited
3	U01409AR1996PTC004803	Koze Zango Private Limited
4	U51909AS2011PLC010736	Altech roofing Structures Private Limited

CHANDAN KUMAR  
Registrar of Companies  
Meghalaya

मुद्रण निदेशालय द्वारा, भारत सरकार मुद्रणालय, एन.आई.टी. फरीदाबाद में  
अपलोड एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा ई-प्रकाशित, 2016

UPLOADED BY DIRECTORATE OF PRINTING AT GOVERNMENT OF INDIA PRESS, N.I.T.  
FARIDABAD AND E-PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2016

[www.dop.nic.in](http://www.dop.nic.in)